

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 73]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 73]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 31st March 1973

G. S. R. 185(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary and expedient so to do for securing the equitable distribution of the essential commodity namely fertilisers;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby directs that the manufacturers specified in the Schedule given below :

- (1) shall sell to the registered fertiliser dealers in the States or Union Territories mentioned in column 1 of the said schedule, fertiliser of the description and quantity mentioned therein and during the period 1st April, 1973 to 31st May, 1973 ; and
- (2) shall submit to the Central Government and the State Governments, or U. T. S. mentioned in column 1 of the said schedule a statement by the 15th day of every month containing therein:—
 - (i) the quantity of fertiliser despatched to various dealers in the States and Union Territories mentioned in column 1 with the dates of despatch during the previous month ; and
 - (ii) the quantity of fertiliser which the said manufacturers propose to despatch to the various dealers in the States and Union Territories mentioned in column 1 in the succeeding month.

SCHEDULE

(In tonnes)

State/Union Territory	F.C.I. Gorakhpur	F.C.I. Namrup	F.C.I. Nangal	F.C.I. Sindri	F.C.I. Trombay	F.A.C.T. Alwayee	FACT Cochin
	Sup- ply N	Sup- ply N	Sup- ply N	Sup- ply N	Supply N P	Supply N P	Supply N
I	2	3	4	5	6	7	8
1 Haryana			1898				
2 Punjab			4192				
3 Rajasthan			417				
4 Uttar Pradesh	11081		458				
5 Jammu & Kashmir							
6 Himachal Pradesh			250				
7 Delhi							
8 Maharashtra					5283	2481	
9 Madhya Pradesh					700	300	
10 Gujarat					83	83	
11 Goa, Daman, Diu							
12 Andhra Pradesh					1550	1105	1479
13 Kerala							794
14 Tamil Nadu							1470
15 Mysore							2300
16 Pondicherry							3010
17 West Bengal		4395		2943			1380
18 Bihar		2915		4645			1470
19 Orissa				1480			2300
20 Assam		666					3010
21 Meghalaya		334					1380
22 Tripura		115					
23 Manipur							
24 Nagaland		8					
25 Chandigarh			60				
TOTAL	11081	8433	7275	9068	10766	6019	8940
							4660
							8070

State/Union Territory	Hindustan Steel Ltd.	Madras Fertiliser Ltd.	Gujarat State Fertilisers Co. Ltd.	Neyveli Lignite Corpn. Ltd.	Coromandel Fertilisers Ltd.
	Supply N	Supply N P.	Supply N P	Supply N	Supply N P
I	9	10	11	12	13
1 Haryana	..	..	500	..	..
2 Punjab	..	..	..	..	..
3 Rajasthan	..	..	..	..	..
4 U. P.	1237	..	2914	..	..
5 J.&K.	..	..	..	..	..
6 Himachal Pr.	..	..	..	..	..
7 Delhi	..	..	..	..	..

	I	9	10	11	12	13
8 Maharashtra	..	..	..	4328	..	..
9 Madhya Pr.	..	1288	..	2916	..	617
10 Gujarat	..	..	..	19534	7346	..
11 Goa, Daman, Diu	..	..	..	100	..	..
12 Andhra Pr.	..	2824	3818	2118	190	8709
13 Kerala	..	..	1288	600	..	..
14 Tamil Nadu	..	..	11808	3886	2683	..
15 Mysore	..	..	5014	2668	2	..
16 Pondicherry	..	..	121	111	25	..
17 West Bengal	..	1957	..	..	..	22
18 Bihar	..	1757	..	..	..	244
19 Orissa	..	4142	..	..	..	275
20 Assam	..	..	..	..	..	..
21 Meghalaya	..	..	..	..	..	..
22 Tripura	..	..	..	..	..	..
23 Manipur	..	..	..	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..	..	..	..
TOTAL	..	13205	22049	9383	30292	7346
					2900	9867
						10030

State/Union Territory	Shriram Chemical Industries Ltd.	E.I.D. Parry Ltd.	Indian Explosives Ltd.	Zuari Agro Chemicals	New Central Jute Mills Co. Ltd.
	Supply N	P..	Supply N	P	Supply N
	14	15	16	17	18
1 Haryana	..	..	..	..	..
2 Punjab	..	..	..	..	..
3 Rajasthan	..	..	..	..	..
4 U. P.	..	..	..	..	..
5 J. & K.	..	..	..	..	..
6 Himachal Pr.	..	..	..	..	..
7 Delhi	..	..	..	..	..
8 Maharashtra	..	..	..	..	..
9 M. P.	..	..	..	..	..
10 Gujarat	..	..	..	..	..
11 Goa, Daman, Diu	..	..	..	..	..
12 Andhra Pr.	..	..	..	..	..
13 Kerala	..	..	..	..	..
14 Tamil Nadu	..	..	..	..	..
15 Mysore	..	..	..	..	..
16 Pondicherry	..	..	..	..	..
17 W. Bengal	..	..	..	..	..
18 Bihar	..	..	..	..	..
19 Orissa	..	..	..	..	..
20 Assam	..	..	..	..	..
21 Meghalaya	..	..	..	..	..
22 Tripura	..	..	..	..	..
23 Manipur	..	..	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..	..	..
TOTAL	..	..	..	..	..

State/Union Territory	Tata Iron and Steel Co. Ltd.	Indian Iron & Steel Co. Ltd.	Adarsh Chemicals & Ferts. Ltd.	Alembic Chemicals Works Co. Ltd.	Anil Starch Products Ltd.	Andhra Sugar Ltd.
	Supply N	Supply N	Supply N	Supply P	Supply P	Supply P
I	19	20	21	22	23	24
1 Haryana	..	..	15	..	..	..
2 Punjab	..	..	42	..	..	..
3 Rajasthan	..	..	..	..	..	..
4 U. P.	..	..	..	..	..	..
5 J. & K.	..	..	..	..	..	..
6 Himachal Pradesh	..	..	..	..	..	..
7 Delhi	..	..	..	..	..	..
8 Maharashtra	..	..	259	26	..	..
9 Madhya Pradesh	..	..	308	40	..	..
10 Gujarat	..	..	878	828	720	..
11 Goa, Daman, Diu	..	..	..	..	..	..
12 Andhra Pradesh	..	..	..	..	..	654
13 Kerala	..	..	..	..	..	..
14 Tamil Nadu	..	..	..	..	..	..
15 Mysore	..	..	..	..	..	..
16 Pondicherry	..	..	..	..	..	..
17 West Bengal	370	200	..	..	..	..
18 Bihar	370	200	..	..	..	..
19 Orissa	..	..	..	..	..	..
20 Assam	..	..	..	..	..	..
21 Meghalaya	..	..	..	..	..	..
22 Tripura	..	..	..	..	..	..
23 Manipur	..	..	..	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..	..	..	..
TOTAL	740	400	1502	894	720	654

States/Union Territory	Bihar State Superphosphate Factory	Coimbatore Pioneer Fertilisers Ltd.	Dharamsi Morarji Chemicals Co. Ltd.	Hindustan Zinc Ltd
	Supply	Supply	Supply	Supply
I	25	26	27	28
1 Haryana	..	..	..	228
2 Punjab	..	..	..	685
3 Rajasthan	..	..	180	224
4 Uttar Pradesh	..	..	..	..
5 Jammu & Kashmir	..	..	..	..
6 Himachal Pradesh	..	..	..	..
7 Delhi	..	..	..	..
8 Maharashtra	..	..	1650	..
9 Madhya Pradesh	..	..	5706	1546
10 Gujarat	..	..	785	..
11 Goa, Daman, Diu	..	..	..	..
12 Andhra Pradesh	..	..	..	..
13 Kerala	..	18	..	..
14 Tamil Nadu	..	106	..	..
15 Mysore	..	103	..	..
16 Pondicherry	..	..	..	..
17 West Bengal	..	..	..	..
18 Bihar	346	..	10	..
19 Orissa	..	..	419	..
20 Assam	..	..	..	..
21 Meghalaya	..	..	..	..
22 Tripura	..	..	..	..
23 Manipur	..	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..	..
TOTAL	346	227	8750	2683

State/Union Territory	Jayshree Chemicals & Ferts. Ltd.	Krishna Industries Corpn.	Phosphate Co. Ltd.	Ralli Chemicals Ltd.	Shaw Wallace & Co.
	Supply P	Supply P	Supply P	Supply P	Supply P
I	29	30	31	32	33
1 Haryana	..	..	..	..	..
2 Punjab	..	..	..	240	..
3 Rajasthan	..	..	..	..	..
4 Uttar Pradesh	..	..	26	666	..
5 J & K	..	..	..	..	..
6 Himachal Pradesh	..	..	..	..	..
7 Delhi	..	..	..	..	..
8 Maharashtra	..	..	..	..	..
9 Madhya Pradesh	284	..	..	..	..
10 Gujarat	..	..	..	..	..
11 Goa, Daman, Diu	..	..	..	..	..
12 Andhra Pradesh	..	453	..	..	287
13 Kerala	..	..	..	..	31
14 Tamil Nadu	..	..	..	..	168
15 Mysore	..	..	..	..	287
16 Pondicherry	..	..	..	..	6
17 West Bengal	250	..	174	..	..
18 Bihar	478	..	280	..	..
19 Orissa	79	..	36	..	..
20 Assam	48	..	163	..	..
21 Meghalaya	..	..	300	..	..
22 Tripura	15	..	2	..	..
23 Manipur	..	..	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..	..	..
TOTAL	1154	453	981	906	779

State/Union Territory	Kothari (Madras) Ltd.	Western Chemicals Industries Ltd.	Bharat Fert. Industries Ltd.
	Supply P _A	Supply P _A	Supply P _A
I	34	35	36
1 Haryana	..	..	..
2 Punjab	..	..	..
3 Rajasthan	..	..	..
4 Uttar Pradesh	..	..	..
5 Jammu & Kashmir	..	..	..
6 Himachal Pradesh	..	..	..
7 Delhi	..	..	..
8 Maharashtra	..	240	480
9 Madhya Pradesh	..	..	320
10 Gujarat	..	..	..
11 Goa, Daman and Diu	..	..	..
12 Andhra Pradesh	500	..	..
13 Kerala	..	..	..
14 Tamil Nadu	500	..	..
15 Mysore	500	..	..
16 Pondicherry	..	..	..

I	34	35	36
17 West Bengal	..	..	..
18 Bihar	..	..	..
19 Orissa	..	..	..
20 Assam	..	..	..
21 Meghalaya	..	..	..
22 Tripura	..	..	..
23 Manipur	..	..	..
24 Nagaland	..	..	..
25 Chandigarh	..	..	..
TOTAL	1500	240	800

[No. 3-14/72-M (Coord)]

ANNA R. GEORGE, Jr. Secy.

कृषि मंत्रालय**(कृषि विभाग)****प्रादेश**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

सा० का० नि० 185(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यक वस्तु अर्थात् उर्वरक का साम्य-पूर्ण वितरण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा ससीचीन है;

अतः अब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माता :-

1. तथा कथित अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकृत उर्वरक व्यावहारियों को उक्त अनुसूची में उल्लिखित उर्वरक तथा, मात्रा को 1 अप्रैल, 1973 से 31 मई, 1973 की अवधि के दौरान बेचेंगे; और
2. केन्द्रीय सरकार और तथा कथित अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक मास की 15 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें निम्नलिखित होगा :-
 - (1) स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न व्यवहारियों को पूर्व मास में भेजे गये उर्वरक की मात्रा, उनकी प्रेषण की तारीखों सहित; और
 - (2) स्तम्भ 1 में उल्लिखित राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के विभिन्न व्यवहारियों को उत्तरवर्ती मास में उक्त विनिर्माता, जिस उर्वरक को भेजने की प्रस्थापना करता है, उसकी मात्रा ।

अनुसूची

(मीटरी टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर	भारतीय उर्वरक निगम नामरूप	भारतीय उर्वरक निगम तंगल	भारतीय उर्वरक निगम पीसदरी	भारतीय उर्वरक निगम ट्राम्बे	एफ० ए० सी० टी० अल्बर्ट	एफ० ए० सी० टी० कोचीन
	सप्लाई एन	सप्लाई एन	सप्लाई एन	सप्लाई एन	सप्लाई एन पी	सप्लाई एन पी	सप्लाई एन
1	2	3	4	5	6	7	8
1 हरियाणा .	—	—	1898	—	—	—	—
2 पंजाब .	—	—	4192	—	—	—	—
3 राजस्थान .	—	—	417	—	—	—	—
4 उत्तर प्रदेश .	11081	—	458	—	—	—	—
5 जम्मू तथा कश्मीर .	—	—	—	—	—	—	—
6 हिमाचल प्रदेश .	—	—	250	—	—	—	—
7 दिल्ली .	—	—	—	—	—	—	—
8 महाराष्ट्र .	—	—	—	—	5283	2481	—
9 मध्य प्रदेश .	—	—	—	—	700	300	—
10 गुजरात .	—	—	—	—	83	83	—
11 गोवा, दमन, दीव .	—	—	—	—	—	—	—
12 आंध्र प्रदेश .	—	—	—	—	1550	1105	794
13 केरल .	—	—	—	—	—	—	1479
14 तमिल नाडु .	—	—	—	—	—	—	1470
							2300
							1543
							3010
							2242

1	2	६	4	5	6	7	8		
15 मैसूर .	—	—	—	—	3150	2050	1471	853	1380
16 पांडिचेरी .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 पश्चिम बंगाल .	—	4395	—	2943	—	—	—	—	—
18 बिहार .	—	2915	—	4645	—	—	—	—	—
19 उड़ीसा .	—	—	—	1480	—	—	—	—	—
20 असम .	—	666	—	—	—	—	—	—	—
21 मेघालय .	—	334	—	—	—	—	—	—	—
22 त्रिपुरा .	—	115	—	—	—	—	—	—	—
23 मणिपुर .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 नागालैण्ड .	—	8	—	—	—	—	—	—	—
25 चंडीगढ़ .	—	—	60	—	—	—	—	—	—
कुल .	11081	8433	7275	9068	10766	6019	8940	4660	8070

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिन्दुस्तान स्टील लि०	मद्रास फर्टिलाइजर	गुजरात राज्य फर्टिलाइजर क० लि०	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०	कारगेमंडल	फर्टिलाइजर लि०	
	सप्लाई एन	सप्लाई एन	पी	सप्लाई एन	पी	सप्लाई एन	पी
1	9	10		11		12	13

1 हरियाणा

500

2 पंजाब

3 राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 उत्तर प्रदेश	1237	—	—	2914	—	—	—	—	—
5 जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 दिल्ली	—	—	—	4328	—	—	—	—	—
8 महाराष्ट्र	—	—	—	2916	—	—	617	617	—
9 मध्य प्रदेश	1288	—	—	19534	7346	—	—	—	—
10 गुजरात	—	—	—	100	—	—	—	—	—
11 गोवा, दमन, दीव	—	—	—	—	—	190	8709	8658	—
12 आंध्र प्रदेश	2824	3818	2118	—	—	—	—	—	—
13 केरल	—	1288	600	—	—	—	—	—	—
14 तमिल नाडु	—	11800	3886	—	—	2683	—	—	—
15 मैसूर	—	5014	2668	—	—	2	—	—	—
16 पांडिचेरी	—	121	111	—	—	25	—	—	—
17 पश्चिम बंगाल	1957	—	—	—	—	—	22	22	—
18 बिहार	1757	—	—	—	—	—	244	244	—
19 उड़ीसा	4142	—	—	—	—	—	275	489	—
20 असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 मेघाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	13205	22049	9383	30292	7346	2900	9867	10030	—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्री राम केमिकल इंडस्ट्रीज लि०		ई० आई० डी० पैरी लि०		इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि०		जुमारी एम्रो केमिकल्स		न्यू सेंट्रल जूट मिल्स क० लि०	
	पूर्ति		पूर्ति		पूर्ति		पूर्ति		पूर्ति	
	एन	पी	एन	पी	एन	पी	एन	पी	एन	पी
1	14		15		16		17		18	
1. हरियाणा	1945	536	—	—	1608	—	—	—	—	—
2. पंजाब	4233	1926	—	—	4438	—	—	—	—	—
3. राजस्थान	3430	383	—	—	184	—	—	—	—	—
4. उत्तर प्रदेश	3052	714	—	—	22708	—	—	—	696	—
5. जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—	115	—	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. दिल्ली	70	15	—	—	150	—	—	—	—	—
8. महाराष्ट्र	1730	—	—	175	—	—	4620	—	—	—
9. मध्य प्रदेश	4369	560	—	40	1104	—	460	—	25	—
10. गुजरात	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. गोआ	—	—	—	—	—	—	205	—	—	—
12. आंध्र प्रदेश	—	—	—	413	—	—	4880	—	—	—
13. केरल	—	—	13	46	—	—	—	—	—	—
14. तमिलनाडु	—	—	985	1477	—	—	460	—	—	—
15. मैसूर	—	—	743	1262	—	—	3845	—	—	—
16. पांडिचेरी	—	—	60	45	—	—	—	—	—	—

17. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—
18. बिहार	—	—	—	—	1028	—	404
19. उड़ीसा	—	—	—	320	—	—	—
20. असम	—	—	—	—	—	—	—
21. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—
22. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—
23. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
24. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	35	—	—
कुल	18869	4134	1801	3778	31370	14470	1125

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टाटाआइरन एण्ड स्टील कं० लि०	इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कं० लि०	आदर्श केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स कं० लि०	अलेम्बिके केमिकल्स वर्कस कं० लि०	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि०	ग्रान्ध सूगर लि०
	पूर्ति एन	पूर्ति एन	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी
1	19	20	21	22	23	24
1. हरियाणा	—	—	15	—	—	—
2. पंजाब	—	—	42	—	—	—
3. राजस्थान	—	—	—	—	—	—

1	19	20	21	22	23	24
4. उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
5. जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7. दिल्ली	—	—	—	—	—	—
8. महाराष्ट्र	—	—	259	26	—	—
9. मध्य प्रदेश	—	—	308	40	—	—
10. गुजरात	—	—	878	828	720	—
11. गोआ, दमन, दीव	—	—	—	—	—	—
12. आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	—	654
13. केरल	—	—	—	—	—	—
14. तमिलनाडू	—	—	—	—	—	—
15. मैसूर	—	—	—	—	—	—
16. पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल	370	200	—	—	—	—
18. बिहार	370	200	—	—	—	—
19. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
20. असम	—	—	—	—	—	—
21. मेघालय	—	—	—	—	—	—
22. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
23. मणिपुर	—	—	—	—	—	—
24. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
कुल	740	400	1502	894	720	654

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बिहार राज्य सुपर-फोस्फेट फैक्ट्री	कोयम्बतूर पाईनीयर फर्टीलाईजर्स लि०	घारामसी मोरारजी केमिकल कं० लि०	हिन्दुस्तान जिंक लि०
	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी
1	25	26	27	28
1. हरियाणा . . .	—	—	—	228
2. पंजाब . . .	—	—	—	685
3. राजस्थान . . .	—	—	180	224
4. उत्तर प्रदेश . . .	—	—	—	—
5. जम्मू तथा काश्मीर . . .	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश . . .	—	—	—	—
7. दिल्ली . . .	—	—	—	—
8. महाराष्ट्र . . .	—	—	1650	—
9. मध्य प्रदेश . . .	—	—	5706	1546
10. गुजरात . . .	—	—	785	—
11. गोआ, दमन तथा दीव . . .	—	—	—	—
12. आन्ध्र प्रदेश . . .	—	—	—	—
13. केरल . . .	—	18	—	—
14. तमिल नाडु . . .	—	106	—	—
15. मैसूर . . .	—	103	—	—

1	25	26	27	28
16. पांडिचेरी . .	—	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल . .	—	—	—	—
18. बिहार . .	346	—	10	—
19. उड़ीसा . .	—	—	419	—
20. असम . .	—	—	—	—
21. मेघालय . .	—	—	—	—
22. त्रिपुरा . .	—	—	—	—
23. मणिपुर . .	—	—	—	—
24. नागालैण्ड . .	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़ . .	—	—	—	—
कुल .	346	227	8750	2683

राज्य/संघ क्षेत्र	जै श्री कैमिकल कृष्णा फोस्फेट कं० लि० तथा फर्ट- लाइजर लि०	ईण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन	रेली कैमिकल लि०	साँ वालेस एंड कं० लि०	कौठारी (मद्रास) लिमिटेड	वेस्ट् कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि०	भारत उर्वरक इण्डस्ट्रीज लि०		
	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी	पूर्ति पी		
	1	29	30	31	32	33	34	35	36
1 हरियाणा	.	—	—	—	—	—	—	—	—
2 पंजाब	.	—	—	—	240	—	—	—	—

3. राजस्थान .	—	—	—	—	—	—	—	—
4. उत्तर प्रदेश .	—	—	26	666	—	—	—	—
5. जम्मू तथा काश्मीर .	—	—	—	—	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश .	—	—	—	—	—	—	—	—
7. दिल्ली .	—	—	—	—	—	—	—	—
8. महाराष्ट्र .	—	—	—	—	—	—	240	480
9. मध्य प्रदेश .	284	—	—	—	—	—	—	320
10. गुजरात .	—	—	—	—	—	—	—	—
11. गोआ, दमन दीव .	—	—	—	—	—	—	—	—
12. आंध्र प्रदेश .	—	453	—	—	287	500	—	—
13. केरल .	—	—	—	—	31	—	—	—
14. तमिलनाडु .	—	—	—	—	168	500	—	—
15. मैसूर .	—	—	—	—	287	500	—	—
16. पांडिचेरी .	—	—	—	—	6	—	—	—
17. पश्चिम बंगाल .	250	—	174	—	—	—	—	—
18. बिहार .	478	—	280	—	—	—	—	—
19. उड़ीसा .	79	—	36	—	—	—	—	—
20. असम .	48	—	163	—	—	—	—	—
21. मेघालय .	—	—	300	—	—	—	—	—
22. त्रिपुरा .	15	—	2	—	—	—	—	—

	1	29	30	31	32	33	34	35	37
23. मजिपुर .		—	—	—	—	—	—	—	—
24. नागालैंड .		—	—	—	—	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़ .		—	—	—	—	—	—	—	—
कुल .		1154	453	981	906	779	1500	240	800

[संख्या 3-14/72 उ० (समन्वय)]

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।